



Nikita

12 Feb 1985

07:13 PM

Lucknow

Model: Web-MyKundli

Order No: 121228901

## सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग \_\_\_\_\_: स्त्रीलिंग  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_: 12/02/1985  
दिन \_\_\_\_\_: मंगलवार  
जन्म समय \_\_\_\_\_: 19:13:00 घंटे  
इष्ट \_\_\_\_\_: 31:08:57 घटी  
स्थान \_\_\_\_\_: Lucknow  
राज्य \_\_\_\_\_: Uttar Pradesh  
देश \_\_\_\_\_: India

अक्षांश \_\_\_\_\_: 26:50:00 उत्तर  
रेखांश \_\_\_\_\_: 80:54:00 पूर्व  
मध्य रेखांश \_\_\_\_\_: 82:30:00 पूर्व  
स्थानिक संस्कार \_\_\_\_\_: -00:06:24 घंटे  
ग्रीष्म संस्कार \_\_\_\_\_: 00:00:00 घंटे  
स्थानिक समय \_\_\_\_\_: 19:06:36 घंटे  
वेलान्तर \_\_\_\_\_: -00:14:18 घंटे  
साम्पातिक काल \_\_\_\_\_: 04:36:48 घंटे  
सूर्योदय \_\_\_\_\_: 06:45:25 घंटे  
सूर्यास्त \_\_\_\_\_: 17:56:11 घंटे  
दिनमान \_\_\_\_\_: 11:10:46 घंटे  
सूर्य स्थिति(अयन) \_\_\_\_\_: उत्तरायण  
सूर्य स्थिति(गोल) \_\_\_\_\_: दक्षिण  
ऋतु \_\_\_\_\_: शिशिर  
सूर्य के अंश \_\_\_\_\_: 00:09:01 कुम्भ  
लग्न के अंश \_\_\_\_\_: 17:48:52 सिंह

#### अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति \_\_\_\_\_: सिंह - सूर्य  
राशि-स्वामी \_\_\_\_\_: वृश्चिक - मंगल  
नक्षत्र-चरण \_\_\_\_\_: विशाखा - 4  
नक्षत्र स्वामी \_\_\_\_\_: गुरु  
योग \_\_\_\_\_: ध्रुव  
करण \_\_\_\_\_: कौलव  
गण \_\_\_\_\_: राक्षस  
योनि \_\_\_\_\_: व्याघ्र  
नाड़ी \_\_\_\_\_: अन्त्य  
वर्ण \_\_\_\_\_: विप्र  
वश्य \_\_\_\_\_: कीटक  
वर्ग \_\_\_\_\_: सर्प  
युँजा \_\_\_\_\_: मध्य  
हंसक \_\_\_\_\_: जल  
जन्म नामाक्षर \_\_\_\_\_: तो-तोरल  
पाया(राशि-नक्षत्र) \_\_\_\_\_: लौह - ताम्र  
सूर्य राशि(पाश्चात्य) \_\_\_\_\_: कुम्भ

## पंचांग

दादा का नाम \_\_\_\_\_ :  
पिता का नाम \_\_\_\_\_ :  
माता का नाम \_\_\_\_\_ :  
जाति \_\_\_\_\_ :  
गोत्र \_\_\_\_\_ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1906	माघ	23
पंजाबी	संवत : 2041	फाल्गुन	1
बंगाली	सन् : 1391	माघ	29
तमिल	संवत : 2041	मासी	1
केरल	कोल्लम : 1160	मकरम	30
नेपाली	संवत : 2041	फाल्गुन	1
चैत्रादि	संवत : 2041	फाल्गुन	कृष्ण 8
कार्तिकादि	संवत : 2041	माघ	कृष्ण 8

### पंचांग


सूर्योदय कालीन तिथि \_\_\_\_\_ : 8  
तिथि समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 24:41:25  
जन्म तिथि \_\_\_\_\_ : 8  
सूर्योदय कालीन नक्षत्र \_\_\_\_\_ : विशाखा  
नक्षत्र समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 19:23:06 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : विशाखा  
सूर्योदय कालीन योग \_\_\_\_\_ : वृद्धि  
योग समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 08:22:46 घंटे  
जन्म योग \_\_\_\_\_ : ध्रुव  
सूर्योदय कालीन करण \_\_\_\_\_ : बालव  
करण समाप्ति काल \_\_\_\_\_ : 13:26:43 घंटे  
जन्म करण \_\_\_\_\_ : कौलव  
भयात \_\_\_\_\_ : 56:59:50  
भभोग \_\_\_\_\_ : 57:25:03  
भोग्य दशा काल \_\_\_\_\_ : गुरु 0 वर्ष 1 मा 12 दि

### घात चक्र


मास \_\_\_\_\_ : आश्विन  
तिथि \_\_\_\_\_ : 1-6-11  
दिन \_\_\_\_\_ : शुक्रवार  
नक्षत्र \_\_\_\_\_ : रेवती  
योग \_\_\_\_\_ : व्यतिपात  
करण \_\_\_\_\_ : गर  
प्रहर \_\_\_\_\_ : 1  
वर्ग \_\_\_\_\_ : गरुड़  
लग्न \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
सूर्य \_\_\_\_\_ : मकर  
चन्द्र \_\_\_\_\_ : धनु  
मंगल \_\_\_\_\_ : कुम्भ  
बुध \_\_\_\_\_ : वृश्चिक  
गुरु \_\_\_\_\_ : मीन  
शुक्र \_\_\_\_\_ : मेष  
शनि \_\_\_\_\_ : कर्क  
राहु \_\_\_\_\_ : वृष

# जन्म कुण्डली

## लग्न कुण्डली



## चन्द्र कुण्डली



# लग्न कुण्डली और दशा

## लग्न कुंडली

शु मं	रा		
सू			
गु बु			ल
	श चं	के	

## लग्न कुंडली

	रा	शु मं
		सू
		गु बु
ल	के	चं श

विंशोत्तरी  
गुरु 0वर्ष 1मा 12दि  
गुरु

12/02/1985

27/03/2089

गुरु	27/03/1985
शनि	27/03/2004
बुध	27/03/2021
केतु	27/03/2028
शुक्र	27/03/2048
सूर्य	27/03/2054
चन्द्र	27/03/2064
मंगल	27/03/2071
राहु	27/03/2089

योगिनी  
धान्या 0वर्ष 0मा 7दि  
भद्रिका

20/02/2025

21/02/2030

भद्रिका	01/11/2025
उल्का	01/09/2026
सिद्धा	22/08/2027
संकटा	01/10/2028
मंगला	21/11/2028
पिंगला	02/03/2029
धान्या	02/08/2029
भ्रामरी	21/02/2030

Meenna Salaria Astro & Numerio

Delhi

9667113751

salaria.meena@gmail.com


## ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			सिंह	17:48:52	319:59:30	पू०फाल्गुनी	2	11	सूर्य	शुक्र	मंगल	---
सूर्य			कुंभ	00:09:01	01:00:40	धनिष्ठा	3	23	शनि	मंगल	बुध	शत्रु राशि
चंद्र			वृश्चि	03:14:11	13:48:55	विशाखा	4	16	मंगल	गुरु	राहु	नीच राशि
मंगल			मीन	13:44:47	00:44:52	उ०भाद्रपद	4	26	गुरु	शनि	राहु	मित्र राशि
बुध	अ		मक	24:57:48	01:43:46	धनिष्ठा	1	23	शनि	मंगल	राहु	सम राशि
गुरु			मक	07:42:08	00:13:33	उत्तराषाढा	4	21	शनि	सूर्य	केतु	नीच राशि
शुक्र			मीन	15:09:13	00:47:34	उ०भाद्रपद	4	26	गुरु	शनि	गुरु	उच्च राशि
शनि			वृश्चि	04:01:57	00:02:19	अनुराधा	1	17	मंगल	शनि	शनि	शत्रु राशि
राहु	व		मेष	29:09:50	00:00:04	कृतिका	1	3	मंगल	सूर्य	मंगल	शत्रु राशि
केतु	व		तुला	29:09:50	00:00:04	विशाखा	3	16	शुक्र	गुरु	सूर्य	सम राशि
हर्ष			वृश्चि	23:41:48	00:01:58	ज्येष्ठा	3	18	मंगल	बुध	मंगल	---
नेप			धनु	09:15:16	00:01:36	मूल	3	19	गुरु	केतु	गुरु	---
प्लूटो	व		तुला	11:05:24	00:00:14	स्वाति	2	15	शुक्र	राहु	शनि	---
दशम भाव			वृष	17:08:22	--	रोहिणी	--	4	शुक्र	चंद्र	शनि	--


व - वकी स - स्थिर  
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त  
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 23:38:45


### लग्न-चलित



### चन्द्र कुंडली



### नवमांश कुंडली



Meenna Salaria Astro & Numerio

Delhi

9667113751

salaria.meena@gmail.com

## चलित तथा निरयण भाव चलित

### चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	सिंह 02:42:07	सिंह 17:48:52
2	कन्या 02:42:07	कन्या 17:35:22
3	तुला 02:28:37	तुला 17:21:52
4	वृश्चिक 02:15:07	वृश्चिक 17:08:22
5	धनु 02:15:07	धनु 17:21:52
6	मकर 02:28:37	मकर 17:35:22
7	कुम्भ 02:42:07	कुम्भ 17:48:52
8	मीन 02:42:07	मीन 17:35:22
9	मेष 02:28:37	मेष 17:21:52
10	वृष 02:15:07	वृष 17:08:22
11	मिथुन 02:15:07	मिथुन 17:21:52
12	कर्क 02:28:37	कर्क 17:35:22


### निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	सिंह	17:48:52
2	कन्या	15:05:39
3	तुला	15:26:04
4	वृश्चिक	17:08:22
5	धनु	18:35:52
6	मकर	19:01:21
7	कुम्भ	17:48:52
8	मीन	15:05:39
9	मेष	15:26:04
10	वृष	17:08:22
11	मिथुन	18:35:52
12	कर्क	19:01:21


### तारा चक्र

जन्म	सम्पत्	विपत्	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
विशाखा	अनुराधा	ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा
पू०भाद्रपद	उ०भाद्रपद	रेवती	अश्विनी	भरणी	कृत्तिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा
पुनर्वसु	पुष्य	आश्लेषा	मघा	पू०फाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति

### चलित कुंडली



### भाव कुंडली



## विंशोत्तरी दशा

### भोग्य दशा काल : गुरु 0 वर्ष 1 मास 12 दिन

गुरु 16 वर्ष	शनि 19 वर्ष	बुध 17 वर्ष	केतु 7 वर्ष	शुक्र 20 वर्ष
12/02/1985	27/03/1985	27/03/2004	27/03/2021	27/03/2028
27/03/1985	27/03/2004	27/03/2021	27/03/2028	27/03/2048
00/00/0000	शनि 30/03/1988	बुध 23/08/2006	केतु 23/08/2021	शुक्र 27/07/2031
00/00/0000	बुध 08/12/1990	केतु 20/08/2007	शुक्र 23/10/2022	सूर्य 26/07/2032
00/00/0000	केतु 17/01/1992	शुक्र 20/06/2010	सूर्य 28/02/2023	चंद्र 27/03/2034
00/00/0000	शुक्र 18/03/1995	सूर्य 27/04/2011	चंद्र 29/09/2023	मंगल 27/05/2035
00/00/0000	सूर्य 28/02/1996	चंद्र 25/09/2012	मंगल 25/02/2024	राहु 27/05/2038
00/00/0000	चंद्र 28/09/1997	मंगल 22/09/2013	राहु 15/03/2025	गुरु 25/01/2041
00/00/0000	मंगल 07/11/1998	राहु 11/04/2016	गुरु 18/02/2026	शनि 27/03/2044
12/02/1985	राहु 13/09/2001	गुरु 18/07/2018	शनि 30/03/2027	बुध 25/01/2047
राहु 27/03/1985	गुरु 27/03/2004	शनि 27/03/2021	बुध 27/03/2028	केतु 27/03/2048

सूर्य 6 वर्ष	चंद्र 10 वर्ष	मंगल 7 वर्ष	राहु 18 वर्ष	गुरु 16 वर्ष
27/03/2048	27/03/2054	27/03/2064	27/03/2071	27/03/2089
27/03/2054	27/03/2064	27/03/2071	27/03/2089	13/02/2105
सूर्य 14/07/2048	चंद्र 25/01/2055	मंगल 23/08/2064	राहु 07/12/2073	गुरु 15/05/2091
चंद्र 13/01/2049	मंगल 26/08/2055	राहु 10/09/2065	गुरु 02/05/2076	शनि 25/11/2093
मंगल 21/05/2049	राहु 24/02/2057	गुरु 17/08/2066	शनि 09/03/2079	बुध 02/03/2096
राहु 14/04/2050	गुरु 26/06/2058	शनि 26/09/2067	बुध 25/09/2081	केतु 06/02/2097
गुरु 31/01/2051	शनि 26/01/2060	बुध 22/09/2068	केतु 14/10/2082	शुक्र 08/10/2099
शनि 13/01/2052	बुध 26/06/2061	केतु 18/02/2069	शुक्र 14/10/2085	सूर्य 27/07/2100
बुध 19/11/2052	केतु 25/01/2062	शुक्र 20/04/2070	सूर्य 07/09/2086	चंद्र 26/11/2101
केतु 27/03/2053	शुक्र 26/09/2063	सूर्य 26/08/2070	चंद्र 08/03/2088	मंगल 02/11/2102
शुक्र 27/03/2054	सूर्य 27/03/2064	चंद्र 27/03/2071	मंगल 27/03/2089	राहु 13/02/2105

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल गुरु 0 वर्ष 1 मा 12 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

## विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

<b>केतु - गुरु</b> 15/03/2025 18/02/2026	<b>केतु - शनि</b> 18/02/2026 30/03/2027	<b>केतु - बुध</b> 30/03/2027 27/03/2028	<b>शुक्र - शुक्र</b> 27/03/2028 27/07/2031	<b>शुक्र - सूर्य</b> 27/07/2031 26/07/2032
गुरु 29/04/2025 शनि 22/06/2025 बुध 09/08/2025 केतु 29/08/2025 शुक्र 25/10/2025 सूर्य 11/11/2025 चंद्र 09/12/2025 मंगल 29/12/2025 राहु 18/02/2026	शनि 24/04/2026 बुध 20/06/2026 केतु 14/07/2026 शुक्र 19/09/2026 सूर्य 09/10/2026 चंद्र 12/11/2026 मंगल 06/12/2026 राहु 04/02/2027 गुरु 30/03/2027	बुध 21/05/2027 केतु 11/06/2027 शुक्र 10/08/2027 सूर्य 28/08/2027 चंद्र 27/09/2027 मंगल 19/10/2027 राहु 12/12/2027 गुरु 29/01/2028 शनि 27/03/2028	शुक्र 15/10/2028 सूर्य 15/12/2028 चंद्र 27/03/2029 मंगल 06/06/2029 राहु 05/12/2029 गुरु 17/05/2030 शनि 26/11/2030 बुध 17/05/2031 केतु 27/07/2031	सूर्य 14/08/2031 चंद्र 14/09/2031 मंगल 05/10/2031 राहु 29/11/2031 गुरु 17/01/2032 शनि 14/03/2032 बुध 05/05/2032 केतु 26/05/2032 शुक्र 26/07/2032
<b>शुक्र - चंद्र</b> 26/07/2032 27/03/2034	<b>शुक्र - मंगल</b> 27/03/2034 27/05/2035	<b>शुक्र - राहु</b> 27/05/2035 27/05/2038	<b>शुक्र - गुरु</b> 27/05/2038 25/01/2041	<b>शुक्र - शनि</b> 25/01/2041 27/03/2044
चंद्र 15/09/2032 मंगल 20/10/2032 राहु 20/01/2033 गुरु 11/04/2033 शनि 16/07/2033 बुध 11/10/2033 केतु 15/11/2033 शुक्र 25/02/2034 सूर्य 27/03/2034	मंगल 21/04/2034 राहु 24/06/2034 गुरु 20/08/2034 शनि 26/10/2034 बुध 25/12/2034 केतु 19/01/2035 शुक्र 31/03/2035 सूर्य 22/04/2035 चंद्र 27/05/2035	राहु 07/11/2035 गुरु 02/04/2036 शनि 22/09/2036 बुध 24/02/2037 केतु 29/04/2037 शुक्र 29/10/2037 सूर्य 23/12/2037 चंद्र 24/03/2038 मंगल 27/05/2038	गुरु 04/10/2038 शनि 07/03/2039 बुध 23/07/2039 केतु 18/09/2039 शुक्र 27/02/2040 सूर्य 16/04/2040 चंद्र 06/07/2040 मंगल 01/09/2040 राहु 25/01/2041	शनि 27/07/2041 बुध 07/01/2042 केतु 15/03/2042 शुक्र 24/09/2042 सूर्य 21/11/2042 चंद्र 25/02/2043 मंगल 04/05/2043 राहु 24/10/2043 गुरु 27/03/2044
<b>शुक्र - बुध</b> 27/03/2044 25/01/2047	<b>शुक्र - केतु</b> 25/01/2047 27/03/2048	<b>सूर्य - सूर्य</b> 27/03/2048 14/07/2048	<b>सूर्य - चंद्र</b> 14/07/2048 13/01/2049	<b>सूर्य - मंगल</b> 13/01/2049 21/05/2049
बुध 20/08/2044 केतु 19/10/2044 शुक्र 10/04/2045 सूर्य 01/06/2045 चंद्र 26/08/2045 मंगल 25/10/2045 राहु 30/03/2046 गुरु 15/08/2046 शनि 25/01/2047	केतु 19/02/2047 शुक्र 01/05/2047 सूर्य 23/05/2047 चंद्र 27/06/2047 मंगल 22/07/2047 राहु 24/09/2047 गुरु 20/11/2047 शनि 26/01/2048 बुध 27/03/2048	सूर्य 01/04/2048 चंद्र 10/04/2048 मंगल 17/04/2048 राहु 03/05/2048 गुरु 18/05/2048 शनि 04/06/2048 बुध 19/06/2048 केतु 26/06/2048 शुक्र 14/07/2048	चंद्र 29/07/2048 मंगल 09/08/2048 राहु 05/09/2048 गुरु 30/09/2048 शनि 29/10/2048 बुध 23/11/2048 केतु 04/12/2048 शुक्र 04/01/2049 सूर्य 13/01/2049	मंगल 20/01/2049 राहु 08/02/2049 गुरु 25/02/2049 शनि 18/03/2049 बुध 05/04/2049 केतु 12/04/2049 शुक्र 04/05/2049 सूर्य 10/05/2049 चंद्र 21/05/2049

## शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	3
भाग्यांक	1
मित्र अंक	3, 5, 7, 9, 1
शत्रु अंक	4, 8
शुभ वर्ष	21,30,39,48,57
शुभ दिन	मंगल, रवि, गुरु
शुभ ग्रह	मंगल, सूर्य, गुरु
मित्र राशि	कर्क, सिंह
मित्र लग्न	वृश्चिक, मेष, मिथुन
अनुकूल देवता	शिव
शुभ रत्न	माणिक्य
शुभ उपरत्न	लाल हकीक, लाल तुर्मली
भाग्य रत्न	मूंगा
शुभ धातु	ताम्र
शुभ रंग	नारंगी
शुभ दिशा	पूर्व
शुभ समय	सूर्योदय
दान पदार्थ	मूंगा, केसर, रक्तचन्दन
दान अन्न	गेहूँ
दान द्रव्य	घी

## रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
माणिक्य	सूर्य	83%	दम्पति, स्वास्थ्य
मूंगा	मंगल	55%	दुर्घटना से बचाव, भाग्योदय, सुख
पन्ना	बुध	52%	शत्रु व रोग मुक्ति, धनार्जन, धन
हीरा	शुक्र	50%	दुर्घटना से बचाव, व्यावसायिक उन्नति, पराक्रम
मोती	चंद्र	41%	ग्रह कलेश, व्यय
गोमेद	राहु	41%	नेष्ट भाग्य, दुर्घटना
पुखराज	गुरु	25%	शत्रु व रोग, सन्तति कष्ट, दुर्घटना
लहसुनिया	केतु	9%	पराक्रम हानि, दुर्घटना
नीलम	शनि	3%	ग्रह कलेश, शत्रु व रोग, दाम्पत्य कष्ट



### दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
गुरु	27/03/1985	89%	52%	61%	28%	50%	25%	3%	41%	9%
शनि	27/03/2004	70%	16%	34%	58%	25%	56%	28%	52%	0%
बुध	27/03/2021	89%	16%	55%	64%	25%	56%	3%	41%	9%
केतु	27/03/2028	70%	16%	61%	52%	25%	56%	0%	16%	34%
शुक्र	27/03/2048	70%	16%	55%	58%	25%	62%	16%	52%	22%
सूर्य	27/03/2054	95%	52%	61%	52%	38%	25%	0%	16%	0%
चंद्र	27/03/2064	89%	58%	55%	58%	25%	50%	3%	16%	0%
मंगल	27/03/2071	89%	52%	67%	28%	38%	50%	3%	16%	22%
राहु	27/03/2089	70%	16%	34%	52%	25%	56%	16%	58%	0%

## साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

### प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	12/02/1985-01/06/1985 17/09/1985-17/12/1987	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	17/12/1987-21/03/1990 20/06/1990-15/12/1990	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	05/03/1993-15/10/1993 10/11/1993-02/06/1995 10/08/1995-16/02/1996	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	23/07/2002-08/01/2003 07/04/2003-06/09/2004 13/01/2005-26/05/2005	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	15/11/2011-16/05/2012 04/08/2012-02/11/2014	-----

### द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	02/11/2014-26/01/2017 21/06/2017-26/10/2017	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	26/01/2017-21/06/2017 26/10/2017-24/01/2020	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	29/04/2022-12/07/2022 17/01/2023-29/03/2025	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----

### तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	11/12/2043-23/06/2044 30/08/2044-08/12/2046	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	08/12/2046-06/03/2049 10/07/2049-04/12/2049	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073	-----

### शनि का ढैया फल

#### ढैया के प्रकार

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया
साढ़ेसाती तृतीय ढैया
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया
अष्टम स्थानस्थ ढैया
साढ़ेसाती प्रथम ढैया

#### फल

अशुभ
शुभ
शुभ
शुभ
शुभ

#### क्षेत्र

सुख हानि
सन्तति
दम्पति
धनार्जन
पराक्रम

## साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

**ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।**

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।  
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

**ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।**

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

**ॐ शं शनैश्चराय नमः ।**

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

## मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।  
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए। जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

\*\*\*\*\*

आपकी जन्म कुण्डली में जन्म के समय मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आप एक मांगलिक कन्या हैं परन्तु नियमानुसार आपका मांगलिक दोष भंग हो रहा है। अतः यह मंगल आपको अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्रदान करेगा। इसके प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा एवं विवाह के उपरान्त पति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदा कदा वे सामान्य रूप से अस्वस्थ रह सकते हैं लेकिन इससे कोई विशेष हानि नहीं होगी। साथ ही इसके शुभ प्रभाव से आप विद्याध्ययन में सफल होंगी तथा उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगी। भाई बहनों से भी आप युक्त रहेंगी जीवन में उनसे पूर्ण सुख तथा सहयोग प्राप्त कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त जीवन में धनैश्वर्य से सुसम्पन्न रहकर अपना सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगी।

यद्यपि यह मंगल आपके लिए अनुकूल फलदायक होगा तथापि इसके प्रभाव से आपकी शादी में अल्प मात्रा में विलम्ब हो सकता है। विवाह शान्ति पूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा एवं इसमें आपको किसी भी प्रकार से अनावश्यक समस्याओं या व्यवधानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। विवाहोपरान्त दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। यदा कदा पति का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा जिससे अल्प मात्रा में दाम्पत्य सुख में कष्टानुभूति प्राप्त कर सकती हैं। परन्तु सामान्यतया आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नता पूर्वक ही व्यतीत होगा।

आपकी कुण्डली में मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आपके सभी शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य यथा समय सिद्ध होते रहेंगे तथा मांगल्य स्थान होने से पति का स्वास्थ्य भी ठीक ही रहेगा एवं दाम्पत्य सुख में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होगी। एकादश भाव पर मंगल की दृष्टि से आप की आय उत्तम होगी एवं धनैश्वर्य का अभाव नहीं होगा। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप एक शिक्षित महिला होंगी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी सफल

हो सकती हैं। आपका पारिवारिक जीवन भी शान्ति एवं वैभव से परिपूर्ण रहेगा। तृतीय भाव पर मंगल की दृष्टि होने से आप भाई बहनों से युक्त रहेंगी एवं जीवन में उनका वांछित सुख एवं सहयोग प्राप्त कर सकेंगी। इस प्रकार जीवन में आप प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकेंगी तथा हमेशा प्रसन्न चित्त रहेंगी।

अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुख एवं आनन्दमय बनाने के लिए आपको किसी गैरमंगली या ऐसे मांगलिक युवक से विवाह करना चाहिए जिसका मांगलिक दोष नियमानुसार समाप्त हो रहा हो। इस प्रकार से यदि आप अपना दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करेंगी तो जीवन में पूर्ण सौभाग्य धनैश्वर्य एवं मान सम्मान प्राप्त करके समाज में यश तथा प्रतिष्ठा अर्जित करने में सफल रहेंगी।

इसके अतिरिक्त जन्मपत्री मिलान के समय अष्टम भाव में ही स्थित पुरुष की कुण्डली में यदि मंगल स्थित हो तो ऐसे में विवाह की यत्नपूर्वक उपेक्षा करनी चाहिए क्योंकि समान भावों में मंगल स्थित होने से आपके समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य विलम्ब या व्यवधानों से युक्त होंगे तथा पति के स्वास्थ्य के लिए भी विशेष अशुभ सिद्ध होगा। अन्य भावों में स्थित मंगल से शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी तथा आपका सम्पूर्ण दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। अतः सावधानी एवं सतर्कता पूर्वक कुण्डली मिलान करें जिससे जीवन में अनावश्यक कठिनाईयां एवं समस्याएं उत्पन्न न हो सकें।

## कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।  
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलार्द्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलार्द्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

### काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

### जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक काल सर्प योग है एवं राहु से केतु तक सभी भाव ग्रहों से पूर्ण है। फलस्वरूप जातक को पिता के सुख में न्यूनता रहती है। फूटे घरे में जिस प्रकार से जल नहीं रहता ठीक उसी प्रकार से भाग्योदय हेतु किये गए प्रयत्नों में सफलता नहीं मिलती। जातक को नौकरी व्यवसाय में व्यवधान उपस्थित होता है एवं आगे बढ़ने के लिए किए गये प्रयास में अड़चनें आती हैं तथा नौकरी में पदावनति होने की प्रबल सम्भावना रहती है। व्यापार व्यवसाय में अल्पमात्रा में लाभ एवं बार-बार नुकसान होता रहता है। विशेष परिश्रम करने के बाद भी जातक स्थिति को संभाल नहीं पाता है। जातक विभिन्न प्रकार के काम धन्दे करता है पर कहीं भी स्थाई सफलता प्राप्त नहीं होती है और अनेक प्रकार की चिन्ता परेशानी जातक को लगी रहती है और भयंकर रोग व्याधि भी घेर लेती है।

इस योग के कारण वैवाहिक जीवन दुःखमय व्यतीत होता है एवं भोग से अतृप्ति रहती है तथा घर में सुख-शान्ति का अभाव रहता है। मामा पक्ष या बहनोई से जातक छले जाते हैं। मित्रगण भी समय पर काम नहीं आते प्रत्युत धोखा दे जाते हैं। परिणामस्वरूप जातक को केवल क्षति ही हाथ लगती है। जातक के ऊपर शासन की तरफ से अनेक मुसीबतें आती हैं और अधिकारियों से मनमुटाव रहता है। केस मुकदमा में जातक को जुर्माना, सजा, दण्ड मिलने की प्रबल संभावना रहती है तथा न्यायालय पर अधिक खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति नाजुक हो जाती है। यहाँ तक कि जातक को कंगाली आ जाता है। सुख सम्पत्ति प्राप्ति के लिए किए गये प्रयास में असफलता हासिल होती है। सामाजिक मान सम्मान का प्रायः अभाव रहता है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. रसोई घर में बैठकर भोजन करें।
3. श्रद्धापूर्वक पितरों का प्रतिवर्ष श्राद्धपक्ष में श्राद्ध करें। कम से कम 7 वर्ष तक अवश्य करें।
4. पलाश के फूल गोमूत्र में कूटकर छांव में सुखावें। उसका चूर्ण बनाकर नित्य स्नान की बाल्टी में यह चूर्ण डालें। इस प्रकार 72 बुधवार (डेढ़ वर्ष) तक स्नान करें।
5. नवनाग स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करें।
6. हर पुष्य नक्षत्र को महादेव पर रुद्री से अभिषेक करें तथा जल दुग्ध समर्पित करें।
7. शुभ मुहूर्त में चाँदी का नाग बनाकर अंगुली में धारण करें।
8. इलाहाबाद (प्रयाग) में संगम पर नाग-नागिन का विधिवत पूजन कर दुग्ध के साथ, संगम में प्रवाहित करे एवं तीर्थराज प्रयाग संगम स्थल में तर्पण श्राद्ध भी एक बार करें।

9. सर्प के वैदिक मन्त्र का जप करना या ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए। विधिवत नाग की पूजोपरान्त मन्त्र का जप करें। मन्त्र है-

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु।

ये ऽअन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥

इस मन्त्र का 31,000 (इकतीस हजार) जप करें। परन्तु कलियुग में सवालाख्र जप का विधान है। जप के उपरान्त होम आदि के तदनन्तर सर्प को जल में प्रवाहित करें।

10. सरस्वती जी की एक वर्ष तक विधिवत उपासना करें।

11. शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर चाँदी का स्वास्तिक एवं दोनो ओर धातु से निर्मित नाग चिपका दें।

12. गोमेद, सीसा, तिल, सरसों, नीलवस्त्र, खड्ग, कंबल आदि समय-समय पर दान करें।

13. शुक्ल पक्ष के प्रथम (जेठे) शनिवार से यह व्रत आरंभ करना चाहिए। यह व्रत 18 करें। काला वस्त्र धारण करके 18 या 3 बीज मन्त्र की माला जपें। तदन्तर एक बर्तन में जल, दूर्वा और कुश लेकर पीपल की जड़ में डालें। भोजन में मीठा चूरमा, मीठी रोटी समयानुसार रेवड़ी, भुग्गा, तिल के बने मीठे पदार्थ सेवन करें और यही दान में भी दें। रात को घी का दीपक जलाकर पीपल की जड़ में रख दें।

14. श्रीमद् भागवत के दशमस्कन्ध के षोडश अध्याय (16) में आये श्लोकों का 108 बार पाठ करें।

15. मंगलवार एवं शनिवार के रामचरितमानस के सुन्दरकाण्ड का 108 बार पाठ श्रद्धापूर्वक करें।

16. शुभ मुहूर्त में सर्वतो भद्रमण्डल यन्त्र को पूजित कर धारण करें।

स्त्री जातक के लिए विशेष - अश्वत्थ (वट) के वृक्ष से नित्य 108 प्रदक्षिणा (फेरे) करें। तीन सौ दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी होगी तो दोष दूर होकर स्वतः ही सन्तति की प्राप्ति होगी।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रेली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।

# पितृदोष विचार

## पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

## पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

### पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

### पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

**ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।**

**नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ॥**

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए ।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें ।

### **पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :**

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें ।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें ।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें । मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें ।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं ।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें ।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें ।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं ।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें । यह स्थान पितृ का स्थान माना जाता है ।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं ।

### **आपकी कुण्डली में पितृदोष**

- पंचम भाव का स्वामी नीच का होकर षष्ठ भाव में स्थित है ।
- पंचम भाव का स्वामी नीचस्थ है और उस पर शनि का प्रभाव है ।

आपकी कुण्डली में गुरु के कारण पितृदोष है ।


आपकी कुण्डली में वृहस्पति पितृदोष कारक ग्रह है अतः दादाजी द्वारा किये गये पापकर्म आपके पितृदोष का कारण है । इस दोष के निवारणार्थ आप विद्वानजनों, वृद्ध ब्राह्मण और पति को दान दें । विद्यालय में पुस्तकों का दान करें ।

आपकी कुण्डली में पितृदोष का योग है परंतु यदि आपको अपने जीवन में उपरोक्त वर्णित पितृदोष लक्षण में से किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी की अनुभूति नहीं हो रही है तो आपको पितृदोष संबंधी उपाय करने की आवश्यकता नहीं है । संभव है कि किसी शुभकार्य के कारण आपके पितृ प्रसन्न हो गए हों व आपको उनकी कृपा प्राप्त हो रही हो या वे मोक्ष को प्राप्त हो गए हों ।

## नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह स्रयंबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।



## ग्रह फल

### सूर्य

सप्तम भाव में सूर्य हो तो जातक चिन्तायुक्त राज्य से अपमानित, आत्मरत, कठोर, स्वाभिमानी एवं विवाहित जीवन दुःखी होता है।

कुम्भ राशि में रवि हो तो जातक स्थिरचित्त, स्वार्थी, कार्यदक्ष, कोधी, दुःखी, निर्धन, अच्छा ज्योतिषी एवं मध्य अवस्था के पश्चात् सन्यास लेने वाला होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है अतः पिता की आप प्रिय रहेंगी। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं आयु भी लम्बी होगी। आपके शुभ प्रभाव से धनलाभ प्राप्त करने में वे सफल होंगे तथा जीवन में सर्वप्रकार से आपकी सहायता एवं सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। आपके विवाह कराने में उनका पूर्ण सहयोग रहेगा। साथ ही आप उनकी विश्वास पात्र भी होंगी।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी तथा उनकी आज्ञा पालन में भी नित्य रुचिशील रहेंगी। आपके आपसी संबंध मधुर होंगे परन्तु यदा कदा कुछ सैद्धान्तिक मतभेद भी होंगे जिससे सम्बन्धों में क्षणिक तनाव एवं कटुता उत्पन्न होगी परन्तु कुछ समयोपरान्त सब कुछ स्वतः ही ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही आप जीवन में उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहेंगी एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं होने देंगी।

### चन्द्र

चतुर्थभाव में चन्द्रमा हो तो जातक सुखी, मानी, दानी, उदार, रोगरहित, राजद्वेषवर्जित, कृषक, विवाह के पश्चात् भाग्योदयी, जलजीवी एवं बुद्धिमान होता है।

वृश्चिक राशि में चन्द्रमा हो तो जातक अपने माता-पिता, भाइयों आदि से अलग रहने वाला, नास्तिक, लोभी, बन्धुहीन, परस्त्रीरत, झगड़ालू, स्पष्ट वक्ता, बुरे विचार रखने वाले, दुःखी, हठी, अनैतिक विचारों वाला एवं धनी होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा की स्थिति चतुर्थ भाव में स्थित हैं। अतः आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा एवं किसी भी प्रकार से शारीरिक व्याकुलता की उनको अनुभूति नहीं होगी। आपके प्रति उनके मन में विशेष स्नेह का भाव रहेगा। आपके परस्पर मधुर संबंध रहेंगे एवं मतभेदों का प्रायः अभाव ही रहेगा। विभिन्न प्रकार की धन सम्पत्ति तथा वाहनादि सुख से वे युक्त रहेंगी तथा आपकी सुख समृद्धि एवं सुखसंसाधनों की प्राप्ति के लिए नित्य आपका आर्थिक तथा अन्य तरफ से सहयोग करती रहेंगी।

आप की भी उनके प्रति असीम निष्ठा एवं आदर का भाव रहेगा। साथ ही जीवन में उनको सर्वप्रकार से सुख प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी। एवं उनकी आज्ञा का पालन भी नित्य करती रहेंगी। इस प्रकार आप माता के लिए शुभ ही रहेंगी।

## मंगल

आठवेंभाव में मंगल हो तो जातक व्याधिस्त, व्यसनी, मद्यपायी, कठोरभाषी, उन्मत्त, नेत्ररोगी, शस्त्रचोर, संकोची, अग्निभीरु, धनचिन्ता युक्त एवं रक्तविकारयुक्त होता है।

मीन राशि में मंगल हो तो जातक गौवरवर्ण, कामुक, आज्ञाकारी गन्दा, अस्थिर जीवन, रोगी, प्रवासी, मान्त्रीक, बन्धु-द्वेषी, नास्तिक, हठी, धूर्त और वाचाल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल अष्टम भाव में स्थित है अतः आपके भाई बहिनों का स्वास्थ्य मध्यम रहेगा एवं यदा कदा शारीरिक रूप से वे अस्वस्थ रहेंगे। आप उनकी प्रिय रहेंगी तथा आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह एवं सम्मान का भाव विद्यमान रहेगा। जीवन में आप समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में उन से आर्थिक तथा अन्य रूप से सहयोग अर्जित करती रहेंगी। धन धान्य का उनके पास अभाव नहीं रहेगा अतः यदा कदा विशिष्ट धन की प्राप्ति आप उनसे कर सकेंगी।

आप भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह भाव रखेंगी एवं अवसरानुकूल सुख दुःख में उनको अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगी। आपके आपसी संबंध भी ठीक ही रहेंगे परन्तु यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेदों के कारण इनमें तनाव तथा कटुता की स्थिति भी उत्पन्न होगी लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। साथ ही आप सुख दुःख में भी उनका सहयोग करने के लिए उद्यत रहेंगी।

## बुध

षष्ठभाव में बुध हो तो जातक विवेकी, कलहप्रिय, वादी, रोगी, आलसी, अभिमानी, परिश्रमी, कामी, दुर्बल एवं स्त्रीप्रिय होता है।

मकर राशि में बुध हो तो जातक कुलहीन, दुश्शील, मिथ्याभाषी, ऋणी, मूर्ख, डरपोक, व्यापार में रुचि लेने वाला, किफायतसार, चतुर एवं परिश्रमी होता है।

## गुरु

षष्ठभाव में गुरु हो तो जातक विवेकी, प्रसिद्ध, ज्योतिषी, विद्वान् सुकर्मरत, दुर्बल, उदार, प्रतापी, नीरोगी, लोकमान्य, बहुत कमशत्रु एवं मधुरभाषी होता है।

मकर राशि में गुरु हो तो जातक प्रवासी, द्रव्यहीन, व्यर्थपरिश्रमी, चंचलचित्त, धूर्त, असभ्य आचरण, दुःखी एवं ईर्ष्यालु होता है।

## शुक्र

अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक ज्योतिषी, क्रोधी, मनस्वी, दुखी, गुप्तरोगी, पर्यटनशील, परस्त्रीरत, विदेशवासी, निर्दयी, गुप्तविद्याओं के प्रतिरुचि एवं रोगी होता है।

मीन राशि में शुक्र हो तो जातक जौहरी, शिल्पज्ञ, जमीन्दार, अच्छा और हास परिहास का स्वभाव, विद्वान, लोकप्रिय, शान्त, धनी, कार्यदक्ष, कृषिकर्म का मर्मज्ञ, शिष्ट और सभ्य सम्मानित एवं आराम तलब होता है।

### शनि

चतुर्थभाव में शनि हो तो जातक अपयशी, बलहीन, धूर्त, कपटी, शीघ्रकोपी, कृशदेही, उदासीन, वातपित्तयुक्त एवं भाग्यवान् होता है।

वृश्चिक राशि में शनि हो तो जातक संकीर्ण विचारों वाला, हिंसक, कठोरध्दय, उतावला, कमजोर स्वास्थ्य, बुरी आदतें, दुःखी, विष से खतरा, निर्धन स्त्रीहीन, कोधी, कठोर एवं लोभी होता है।

### राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

मेष राशि में राहु हो तो जातक-पराकर्महीन, आलसी, अविवेकी एवं अनैतिक चरित्र होता है।

### केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

तुला राशि में केतु हो तो जातक कृष्टरोगी, दुःखी, कोधी एवं कामी होता है।

## दशा विश्लेषण

महादशा :- केतु  
( 27/03/2021 - 27/03/2028 )

केतु की महादशा 27/03/2021 को आरम्भ और 27/03/2028 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में केतु तृतीय भाव में स्थित है। केतु की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी अवधि 17 वर्ष थी। बुध के कारण आपको जीवन का सुख, सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हुई होगी। केतु की वर्तमान दशा में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा सफलता और संबंधियों से सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। मौसम में परिवर्तन के कारण आपको पित्तदोष, फोड़ा-फुन्सी, विषाणुजन्य संक्रामक रोग, गले से संबंधित बीमारी आदि हो सकती है। कुछ सतर्कता से इनसे बचाव किया जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी स्व-अर्जित सम्पत्ति होगी। आपकी आय में वृद्धि होगी और सभी सुख मिलेगा। आपको सट्टे में अच्छा लाभ मिलेगा और निवेश लाभदायक रहेगा। जीविका के लिये दवा, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवा, लोक प्रशासन, सैन्य तथा राजनीतिक सेवा, तकनीकी विज्ञान, पेशेवर खेल आदि का चयन कर सकते हैं। चमड़े के सामान, सोना रत्न, संगमरमर, अनाज आदि का व्यापार लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को यश, ख्याति, आय में वृद्धि तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। सहकर्मी तथा सहायक से सहायता मिलेगी और वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है किन्तु उनमें बाधाओं पर विजय पाने का संकल्प है। दशा में प्रगति के साथ-साथ स्थिति में सुधार होगा।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा के दौरान आपको जीवन का सुख मिलेगा। आप अपना आवास बदल सकते हैं। आप एक नयी गाड़ी खरीद सकते हैं। जमीन-जायदाद के लेन-देन सावधानी से करें ताकि छोटे-मोटे नुकसानों को रोका जा सके। सूर्य की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। इसकी पूरी दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। शुक्र की अन्तर्दशा के दौरान दूर की यात्रा की सम्भावना है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप वाद-विवाद, कला-प्रदर्शन और खेल में बहुत सफल होंगे। आप परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में अच्छा करेंगे। दवा, कम्प्यूटर, भूगर्भ-शास्त्र, प्रशासनिक सेवा, कला, दर्शनशास्त्र आदि में आपकी रुचि होगी। आप दृढ़निश्चय और एकाग्रचित्त हैं और अपनी शिक्षा में अच्छा करेंगे।

**Meenna Salaria Astro & Numerio**

Delhi

9667113751

salaria.meena@gmail.com

परिवार :

परिवार के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा। आपके बच्चे धनवान होंगे, उनके लक्ष्यों की पूर्ति होगी और आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवनसाथी की यात्रा और समृद्धि की प्राप्ति होगी और धार्मिक कार्यों की ओर उनका झुकाव होगा। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सफलता और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुक्र के फलस्वरूप आपको आराम, सुख और उत्तम शिक्षा की प्राप्ति तथा यात्रा होगी। सूर्य के कारण आपकी छोटी यात्रा होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सगे संबंधियों से सहायता मिलेगी जबकि चन्द्र की दशा में लाभ और पारिवारिक आनन्द मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य के खराब होने, विरोध और सम्पत्ति-लाभ की सम्भावना है। राहु के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपका विवाह होगा, जीविका में प्रगति और साझेदारों से लाभ मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा में कुछ परिवर्तन, पिता से लाभ, यात्रा और अध्यात्म में रुचि होगी। बुध की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

**अंतर्दशा :- केतु - गुरु  
( 15/03/2025 - 18/02/2026 )**

आपके लिए केतु महादशा 27/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा की अवधि 11 मास 6 दिन होगी। आपके लिए यह 15/03/2025 को प्रारंभ होकर 18/02/2026 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी बृहस्पति ज्ञान, धन और संतान का कारक है।

इस अवधि में आपकी शत्रुओं पर विजय होगी। स्पर्धियों पर सफल रहेंगे। कार्यालय उत्तम होगा। चुनाव में जीत सकते हैं। मुकदमे में जीत होगी। कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कार्यक्षेत्र में सफल होंगे, धनी बनेंगे। पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, शिक्षा उत्तम होगी। आपके जीवनसाथी के खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके पिता कार्यक्षेत्र में प्रगति करेंगे। माता की बौद्धिक उन्नति होगी। आपके भाई-बहनों के लिए अचल संपत्ति की प्राप्ति, उत्तम शिक्षा, परिवर्तन और अप्रत्याशित लाभ का संकेत है।

आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धन संचित करेंगे, प्रसन्न और भाग्यशाली होंगे, सब सुख-साधन उपलब्ध होंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाता भाग्यशाली रहेंगे। व्यापारियों के कार्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है।

आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, मामूली व्याधि हो सकती है। शुभत्व में वृद्धि के लिए ब्रह्माजी की उपासना करें।

**अंतर्दशा :- केतु - शनि  
( 18/02/2026 - 30/03/2027 )**

आपके लिए केतु महादशा 27/03/2021 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सातवीं अंतर्दशा शनि की होगी जिसकी अवधि 1 वर्ष 9 दिन होगी। यह अंतर्दशा 18/02/2026 को प्रारंभ होकर 30/03/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी शनि भाग्य और सेवा का कारक है।

इस अवधि में आप अचल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। धन-समृद्धि और सम्मान की वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी; स्वास्थ्य उत्तम होगा। आत्म-विश्वास और विवेक में वृद्धि होगी।


आपके जीवनसाथी को कार्यों में सफलता मिलेगी। आपके पिता के जीवन में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं, धनार्जन उत्तम होगा। माता को कुछ बाधाओं के बाद सफलता मिल जाएगी।

आपके भाई-बहनों के लिए धन लाभ, आरामदेह जीवन, अचल संपत्ति की प्राप्ति, सुखी घरेलू जीवन का संकेत है।

**महादशा :- शुक्र  
( 27/03/2028 - 27/03/2048 )**

आपकी कुण्डली में शुक्र की महादशा 27/03/2028 को आरंभ होकर 27/03/2048 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 20 वर्ष है।

शुक्र, जो स्वभावतः एक शुभ ग्रह है और संगीत, नाटक, अच्छे स्वाद, भावनात्मक आनन्द और मनोरंजन का द्योतक है। यह विवाह का कारक भी है। यह दो राशियों वृष तथा तुला का स्वामी है एवं मीन राशि में उच्च का जबकि कन्या राशि में निम्न का होता है। आपकी कुण्डली में यह अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव में स्थित यह आपकी जन्म कुण्डली के द्वितीय भाव को देख रहा है और इस भाव पर शुभ प्रभाव डाल रहा है। भाव, जिसमें यह स्थित है अर्थात् अष्टम भाव दीर्घायु, पैतृक गुण, पैतृक सम्पत्ति, दुर्घटनाएँ, धोखे से मृत्यु, भाग्यहीनता,



उदासी और अपयश का द्योतक है।

स्वास्थ्य :

अष्टम भाव में स्थित शुक्र भाव को प्रबलित कर रहा है जो दीर्घ आयु का द्योतक है। इसलिए आपकी उम्र काफी लम्बी होगी तथा आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या या दुर्घटना नहीं होगी।

अर्थ संपत्ति :

शुक्र अष्टम भाव में स्थित है जो आपके वित्तीय जीवन में काफी उतार-चढ़ाव देगा। आपकी जन्म कुण्डली में यह अष्टम भाव से द्वितीय भाव, जो धन का भाव है, को देख रहा है। अतः इस दशा काल में धन की कमी नहीं होगी और आप चल तथा अचल सम्पत्ति में वृद्धि कर पाने की स्थिति में होंगे। आपको कुछ विरासती सम्पत्ति भी मिल सकती है।

व्यवसाय :

व्यावसायिक रूप से सुभ्यस्त आप जमीन, वाहन, अधिकार, तथा पद प्राप्त करेंगे। आप अपने व्यावसायिक क्षेत्र में ख्याति करेंगे। आप कोई भी व्यवसाय करें, सफल होंगे। आप शिक्षित होंगे और आपका झुकाव धर्म की ओर होगा।

पारिवारिक जीवन :

आपका पारिवारिक जीवन सौहार्द पूर्ण तथा नियमित होगा। जीवन में कुछ उदासी तथा बाधाएं आएंगी जिन्हें आप पार कर लेंगे। आपके पिता कुछ कठिनाइयों से गुजर सकते हैं अपने कार्य में असफल हो सकते हैं।

**अंतर्दशा :- शुक्र - शुक्र  
( 27/03/2028 - 27/07/2031 )**

शुक्र महादशा की अवधि 20 वर्ष होती है। आपके लिए यह 27/03/2028 को प्रारंभ होकर 27/03/2048 को समाप्त होगी। इस महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 3 वर्ष 4 मास की होगी। आपके लिए यह 27/03/2028 को प्रारंभ होकर 27/07/2031 को समाप्त होगी।

शुक्र आपकी जन्मपत्री में अष्टम भाव में स्थित है। अष्टम भाव आयु, विरासत, दुर्घटना, दुर्भाग्य, दुख, चिंता, निराशा, हानि, बाधा, चोरी और डकैती का प्रतिनिधि है। शुक्र शुभ ग्रह है। अष्टम भाव में स्थित होकर शुक्र आपकी कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि डाल रहा है और उसके कारकत्व को प्रभावित कर रहा है।

इस अवधि में आप धनी बनेंगे। वाहन आदि सभी सुख उपलब्ध रहेंगे। अत्यधिक संवेदनशील हो सकते हैं, अतः भावनाओं पर नियंत्रण आवश्यक है।

शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र के तांत्रिक मंत्र के 64000 जाप करें और निम्न उपाय करें :

- चींटियों को चीनी और आटा खिलाएं।
- कन्याओं को खीर खिलाएं।
- लक्ष्मीजी की उपासना करें।